

Examdt: 30.09.2021 (E)

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 32  
Number of Pages in Booklet : 32

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या : 150  
No. of Questions in Booklet : 150  
Paper Code : 24

Sub : Accountancy and  
Business Statistics-II

समय : 3.00 घण्टे  
Time : 3.00 Hours

प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या /  
Question Paper Booklet No.

**APCE-12**

8191765

**Paper - II**

अधिकतम अंक : 75  
Maximum Marks : 75

प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के पेपर सील/पॉलिथीन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुस्तिका पर वही प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है। इसमें कोई भिन्नता हो तो परीक्षार्थी वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

On opening the paper seal/polythene bag of the Question Paper Booklet the candidate should ensure that Question Paper Booklet No. of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same. If there is any difference, candidate must obtain another Question Paper Booklet from Invigilator. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

**परीक्षार्थियों के लिए निर्देश**

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।
5. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है।
6. OMR उत्तर पत्रक इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर-पत्रक निकाल कर ध्यान से केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से विवरण भरें।
7. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से है। किसी भी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा।
8. मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं।
10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

**चेतावनी:** अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

**INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES**

1. Answer all questions.
2. All questions carry equal marks.
3. Only one answer is to be given for each question.
4. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
6. The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
7. 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
9. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll Number.
10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

**Warning:** If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

24-□



1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क की भूमिका है
- (1) आयात घटाना एवं विदेशी मुद्रा की बचत ।
  - (2) व्यापार शेष एवं भुगतान शेष को अनुकूल करना ।
  - (3) विदेशी व्यापार समझौतों का क्रियान्वयन ।
  - (4) उपरोक्त सभी
2. धारा 2(3) में 'यात्री सामान' का अर्थ है
- (1) किसी यात्री के ऐसे सामान से है जो माल की परिभाषा में आता है तथा
  - (2) जिस पर सीमा-शुल्क देय है तथा
  - (3) ऐसा सामान यात्री के साथ भी हो सकता है अथवा यात्री के रवाना होने के पूर्व या बाद में इसे विदेश से किसी यात्री के सामान के रूप में भेजा जा सकता है ।
  - (4) उपरोक्त सभी
3. शुल्क योग्य माल (धारा 2 (14)) से आशय
- (1) ऐसे माल से है जिस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सीमा शुल्क देय है तथा
  - (2) जिस पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया है तथा
  - (3) वह वस्तु इस अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार "माल" की परिभाषा में आती है तथा उसका उल्लेख सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम में भी किया है ।
  - (4) उपरोक्त सभी
4. निम्नलिखित में से सीमा शुल्क से संबंधित है
- (1) सीमा शुल्क का उद्ग्रहण भारत में आयात किये गये माल अथवा भारत से निर्यात किये गये माल पर किया जाता है ।
  - (2) सीमा शुल्क की दरें सीमा टैरिफ अधिनियम, 1975 में दी गई हैं ।
  - (3) इस अधिनियम में या किसी अन्य कानून में ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जिनमें सीमा-शुल्क नहीं लगाया जाता है ।
  - (4) उपरोक्त सभी

1. Role of custom duty in International Trade is \_\_\_\_\_.
- (1) Reducing imports and saving in foreign exchange.
  - (2) Optimising the balance of trade and balance of payment.
  - (3) Implementation of Foreign Trade Agreements.
  - (4) All of the above
2. Meaning of 'baggage' u/s 2(3) is \_\_\_\_\_
- (1) Such articles of a passenger which are covered by the definition of "Goods" and
  - (2) Which are subject to custom duty and
  - (3) Such articles may be carried on by the passenger with him or it may be dispatched from abroad as baggage before or after the departure of passenger
  - (4) All of the above
3. Suitable goods (Section 2 (14)) means
- (1) Any goods which are chargeable to duty and
  - (2) On which duty has not been paid and
  - (3) It is covered by the definition of "Goods" as given in Section 2(22) of this Act and it is given in the Custom Tariff Act, also
  - (4) All of the above
4. Which of the following is related with Customs Duty?
- (1) Customs Duty is levied on the goods imported into India or goods to be exported from India.
  - (2) The rates of Customs Duty are given in the Customs Tariff Act, 1975.
  - (3) There are such circumstances either in this Act or in any other law in which customs duty is not levied.
  - (4) All of the above

5. तम्बाकू एवं इसके उत्पादों के आयात पर शुल्क के प्रावधान हैं
- (1) अतिरिक्त सीमा शुल्क धारा 3(1) के अन्तर्गत
  - (2) धारा 3(7) के तहत एकीकृत माल एवं सेवा कर
  - (3) धारा 3(9) के तहत माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति सैस
  - (4) उपरोक्त सभी
6. निम्न विवरण से देय कुल सीमा शुल्क गणना की कीजिए :
- (i) आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य ₹ 10,00,000
  - (ii) आधारभूत सीमा शुल्क की दर 20%
  - (iii) आयातित माल भारत में भी उत्पादित होता है। उस माल पर भारत में 12% की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है।
  - (iv) सामाजिक कल्याण अधिभार 10% की दर से
- |                |                |
|----------------|----------------|
| (1) ₹ 3,78,400 | (2) ₹ 3,44,000 |
| (3) ₹ 2,00,000 | (4) ₹ 1,44,000 |
7. सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त (अपील) द्वारा अपील पर निर्णय की समय सीमा है
- |           |            |
|-----------|------------|
| (1) 3 माह | (2) 6 माह  |
| (3) 9 माह | (4) 12 माह |
8. अधिसूचित माल के रखने वालों द्वारा ऐसे माल के संग्रहण के स्थान तथा खाते रखा जाना सूचित किया जायेगा यदि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे माल का बाजार मूल्य \_\_\_\_\_ से अधिक हो।
- |              |              |
|--------------|--------------|
| (1) ₹ 5,000  | (2) ₹ 10,000 |
| (3) ₹ 15,000 | (4) ₹ 20,000 |
9. सीमा शुल्क उद्ग्रहण करने के क्या-क्या आधार हैं ?
- (1) विशिष्ट शुल्क
  - (2) मूल्यानुसार शुल्क
  - (3) या तो विशिष्ट शुल्क या मूल्यानुसार शुल्क
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. Provisions of import duty on import of Tobacco and its products are
- (1) Additional Duty of Customs u/s 3(1).
  - (2) Integrated Goods & Service Tax u/s 3(7).
  - (3) GST Compensation Cess u/s 3(9).
  - (4) All of the above
6. From the following particulars calculate total custom duty payable :
- (i) Assessable value of imported goods ₹ 10,00,000.
  - (ii) Basic custom Duty payable at 20%.
  - (iii) The imported goods are also produced in India, on such goods Excise Duty is leviable at 12%.
  - (iv) Social welfare surcharge at 10%.
- |                |                |
|----------------|----------------|
| (1) ₹ 3,78,400 | (2) ₹ 3,44,000 |
| (3) ₹ 2,00,000 | (4) ₹ 1,44,000 |
7. Time limit for disposal of an appeal by the Commissioner (Appeal) in Custom Duty Act is \_\_\_\_\_
- |              |               |
|--------------|---------------|
| (1) 3 months | (2) 6 months  |
| (3) 9 months | (4) 12 months |
8. Person possessing specified goods to intimate the place of storage and to maintain accounts if the market price of which exceeds \_\_\_\_\_ under Custom Duty Act.
- |              |              |
|--------------|--------------|
| (1) ₹ 5,000  | (2) ₹ 10,000 |
| (3) ₹ 15,000 | (4) ₹ 20,000 |
9. What are the basis for levying Custom Duty ?
- (1) Specific Duty
  - (2) Ad Valorem Duty
  - (3) Either specific duty or Ad Valorem Duty
  - (4) None of the above

10. सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 के अन्तर्गत निर्यात मूल्य के निर्धारण का संगणित मूल्य (नियम 5) का सूत्र क्या है ?
- (1) निर्माण लागत
  - (2) निर्माण लागत + ब्राण्ड चार्जेज
  - (3) निर्माण लागत + ब्राण्ड चार्जेज + लाभ की राशि
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
11. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत देय अतिरिक्त सीमा शुल्क की सामान्य प्रभावी दर क्या है ?
- (1) 10%
  - (2) 12.5%
  - (3) 15%
  - (4) 20%
12. किस प्रकार का माल मुक्त आयात में शामिल नहीं है ?
- (1) निषेध माल
  - (2) प्रतिबन्धित माल
  - (3) राज्य व्यापार उपक्रम के माध्यम से विशिष्ट माल का आयात
  - (4) उपरोक्त सभी
13. किन वस्तुओं का आयात केवल राज्य व्यापार उपक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है ?
- (1) कृषिजन्य उत्पाद
  - (2) पेट्रोल के उत्पाद
  - (3) यूरिया
  - (4) उपरोक्त सभी
14. माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत माल की परिभाषा में \_\_\_\_\_ शामिल नहीं है।
- (1) अभियोग योग्य दावे
  - (2) उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास और वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिनकी आपूर्ति के पूर्व या आपूर्ति के अनुबंध के तहत पृथक किये जाने का करार किया गया है।
  - (3) मुद्रा और प्रतिभूतियाँ
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. What is the formula of Computed Value (Rule 5) for determination of value of export under Customs Valuation Rules 2007 ?
- (1) Cost of manufacture.
  - (2) Cost of manufacture + Brand Charges.
  - (3) Cost of manufacture + Brand charges + Amount towards profit.
  - (4) None of the above
11. What is the General effective rate of additional duty of customs payable u/s 3(1) of the Customs Tariff Act, 1975 ?
- (1) 10%
  - (2) 12.5%
  - (3) 15%
  - (4) 20%
12. Which type of goods are not included in Free Imports ?
- (1) Prohibited goods
  - (2) Restricted goods
  - (3) Import of specified goods through state trading enterprises
  - (4) All of the above
13. Which commodities can be imported only through state trading enterprises ?
- (1) Agricultural products
  - (2) Petroleum products
  - (3) Urea
  - (4) All of the above
14. Definition of 'Goods' does not include \_\_\_\_\_ under GST Act, 2017.
- (1) Actionable claims
  - (2) Growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply
  - (3) Money and securities
  - (4) None of the above

15. माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत सेवाएँ की परिभाषा में शामिल नहीं है
- (1) प्रतिभूतियों के व्यवहारों में मदद करना एवं उनको निपटाना ।
  - (2) ₹ 2,000 के नोट को पाँच-पाँच सौ रुपये के नोट में परिवर्तन कराना जिसके लिए कोई कमीशन नहीं दिया ।
  - (3) विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तन करना, जिसके लिए कमीशन देय है ।
  - (4) मुद्रा के बदले बैंक ड्राफ्ट जारी करना, जिसके लिए कमीशन देय है ।
16. माल एवं सेवा कर की संकल्पना है
- (1) यह मूल्य वृद्धि कर है ।
  - (2) इस कर का भार उपभोक्ता वहन करता है ।
  - (3) कर पर कर नहीं लगता है ।
  - (4) उपरोक्त सभी
17. निम्नांकित गतिविधियों एवं व्यवहारों में से किसे न तो माल की आपूर्ति ना ही सेवा की आपूर्ति माना जायेगा ?
- (1) माल के स्थायित्व का हस्तांतरण ।
  - (2) पट्टा, किरायेदारी और जमीन पर रहने का लाइसेंस ।
  - (3) दाह संस्कार, कब्रिस्तान, शवदाहगृह या शवगृह सेवाएँ ।
  - (4) अचल संपत्ति को किराये पर देना ।
18. शून्य दर आपूर्ति का अर्थ है
- (1) माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों का निर्यात
  - (2) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति
  - (3) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से है ।
  - (4) उपरोक्त सभी
19. यदि माल एवं सेवा की आपूर्ति अन्तर्राज्यीय हो तब केवल
- (1) एकीकृत माल एवं सेवा कर लगाया जायेगा ।
  - (2) राज्य माल एवं सेवा कर लगाया जायेगा ।
  - (3) संघीय क्षेत्र माल एवं सेवा कर लगाया जायेगा ।
  - (4) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर लगाया जायेगा ।
15. Definition of 'Services' does not include \_\_\_\_\_ under GST Act, 2017.
- (1) Facilitating or arranging transactions in securities.
  - (2) Conversion of a note of ₹ 2,000 into the notes of ₹ 500 denomination for which no consideration is paid.
  - (3) Conversion of foreign currency into Indian currency, for which commission is payable.
  - (4) Issuing bank draft for exchange of money, for which commission is payable.
16. Concept of Goods and Service Tax is
- (1) It is Value Added Tax.
  - (2) Burden of this tax is borne by consumer.
  - (3) No Cascading of Taxes.
  - (4) All of the above
17. From the following activities and transactions, which shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service ?
- (1) Transfer of title of goods.
  - (2) Lease, tenancy and license to occupy land.
  - (3) Services of funeral, burial, crematorium or mortuary.
  - (4) Renting of immovable property.
18. Zero rated Supply means
- (1) Export of goods or services or both.
  - (2) Supply of goods or services or both to a developer of Special Economic Zone.
  - (3) Supply of goods or services or both to any unit established in a special Economic Zone.
  - (4) All of the above
19. If the supply of goods & Service is interstate, then only
- (1) Integrated Goods and Service Tax shall be imposed.
  - (2) State Goods and Service Tax shall be imposed.
  - (3) Union Territory Goods and Service Tax shall be imposed.
  - (4) Central Goods and Service Tax shall be imposed.

20. जीएसटी अधिनियम, 2017 को धारा 9(1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे

- (1) मानव उपभोग की मादक शराब की बिक्री
- (2) पेट्रोल पदार्थों की आपूर्ति
- (3) एक कम्पनी के अंशों एवं ऋणपत्रों के विक्रय-क्रय
- (4) उपरोक्त सभी

21. राम ने कुछ माल गणेश को विक्रय या वापसी पर भेजा जो उसने आपूर्ति करने के लिए 1 सितम्बर, 2020 को हटाया। गणेश को यह माल 5 सितम्बर, 2020 को 2 सितम्बर, 2020 की तिथि के बीजक के साथ प्राप्त हुआ। गणेश ने 18 अक्टूबर, 2020 को माल क्रय करने की स्वीकृति दी। राम को 29 अक्टूबर, 2020 को गणेश से माल के बीजक की राशि प्राप्त हुई। राम द्वारा गणेश को की गई माल की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिये।

- (1) 2 सितम्बर, 2020
- (2) 5 सितम्बर, 2020
- (3) 18 अक्टूबर, 2020
- (4) 29 अक्टूबर, 2020

22. कोचिंग संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छमाही आधार पर कोचिंग सेवा प्रदान करती है। कोचिंग प्राप्त करने वाले को कोचिंग संस्थान को प्रति कलैण्डर माह के प्रारम्भ होने की तिथि के 20 दिन के भीतर भुगतान करना आवश्यक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सामान्यतः प्रत्येक माह के प्रारम्भ में बीजक जारी करती है। कोचिंग ₹ 20,000 प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती है। माह जनवरी, 2020 में कोचिंग संस्थान ने 13 जनवरी, 2020 को बीजक जारी किया तथा कोचिंग प्राप्तकर्ता ने 17 जनवरी, 2020 को बीजक राशि का भुगतान कर दिया। माह जनवरी, 2020 के लिए कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदान की गई कोचिंग सेवा की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए।

- (1) 1 जनवरी, 2020
- (2) 13 जनवरी, 2020
- (3) 17 जनवरी, 2020
- (4) 20 जनवरी, 2020

20. Provisions of Section 9(1) of GST Act, 2017 shall not be applicable on

- (1) Sale of Alcoholic liquor for human consumption.
- (2) Supply of petroleum products.
- (3) Sale-purchase of shares and debentures of a company.
- (4) All of the above

21. Ram supplied certain goods to Ganesh on sale or return basis. He removed the goods on 1<sup>st</sup> September, 2020, which reached to Ganesh on 5<sup>th</sup> September, 2020 along with invoice dated 2<sup>nd</sup> September, 2020. Ganesh sent his acceptance of goods on 18<sup>th</sup> October, 2020. Ram received the amount of goods on 29<sup>th</sup> October, 2020. Determine the time of supply of goods by Ram to Ganesh.

- (1) 2<sup>nd</sup> September, 2020
- (2) 5<sup>th</sup> September, 2020
- (3) 18<sup>th</sup> October, 2020
- (4) 29<sup>th</sup> October, 2020

22. A coaching institute provides six monthly coaching services for competitive examination. The recipient of coaching services required to pay monthly ₹ 20,000 within 20 days from the date of commencement of each calendar month. Coaching institute generally issues invoice at the beginning of every month. For the month of January, 2020, the coaching institute issued invoice on 13<sup>th</sup> January, 2020 and coaching receiver paid the amount on 17<sup>th</sup> January, 2020. Determine the time of supply of coaching services provided by coaching institute for the month of January, 2020.

- (1) 1<sup>st</sup> January, 2020
- (2) 13<sup>th</sup> January, 2020
- (3) 17<sup>th</sup> January, 2020
- (4) 20<sup>th</sup> January, 2020

23. आपूर्ति का करयोग्य मूल्य निर्धारित होता है

- (1) संव्यवहार मूल्य जिसका भुगतान कर दिया है या भुगतान देय है आपूर्ति का करयोग्य मूल्य है।
- (2) आपूर्ति का आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता सम्बन्धित व्यक्ति नहीं है। यदि वे सम्बन्धित व्यक्ति हैं तो सामान्य प्रावधान लागू नहीं होंगे, अलग प्रावधान लागू होंगे।
- (3) आपूर्ति के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है अर्थात् यदि प्रतिफल के अलावा अन्य तत्वों ने आपूर्ति को प्रभावित किया हो तो अलग प्रावधान लागू होंगे।
- (4) उपरोक्त सभी

24. XYZ Ltd. के जनवरी 2021 माह के दौरान निम्नांकित क्रय में से वो क्रय पता लगायें जिस पर इनपुट कर जमा स्वीकृत है :

- (1) बिना बीजक माल की खरीदी की।
- (2) व्यवसाय में उपयोग न किये जाने वाले माल की खरीद।
- (3) एबीसी लिमिटेड से वैध बीजक से माल की खरीद की। एबीसी लिमिटेड द्वारा कर जमा करा दिया गया है। XYZ Ltd. द्वारा ABC Ltd. को माह जनवरी 2021 में ऐसे क्रय का भुगतान कर दिया गया है।
- (4) कम्पोजीशन व्यापारी से बिना वैध बीजक के खरीद।

25. बजाज ऑटो लिमिटेड, जो मोटर साइकिल के निर्माता हैं, को इनके द्वारा माह मार्च 2021 में प्राप्त की गयी निम्नांकित सेवाओं के संबंध में उपलब्ध कुल इनपुट कर जमा की गणना कीजिए :

- विक्रय संवर्द्धन सेवाएँ ₹ 40,000, बाजार अनुसंधान सेवाएँ ₹ 30,000 तथा कर्मचारियों को प्रदान की गई बीमा सेवाएँ ₹ 20,000

- (1) ₹ 90,000
- (2) ₹ 70,000
- (3) ₹ 50,000
- (4) ₹ 20,000

26. भारत में 'माल व सेवा कर' लागू किया गया है :

- (1) 1 जनवरी, 2017 से
- (2) 1 अप्रैल, 2017 से
- (3) 1 मार्च, 2017 से
- (4) 1 जुलाई, 2017 से

23. Value of taxable supplies is determined

- (1) Value of taxable supply is the transaction value which has been actually paid or is payable.
- (2) The supplier and recipient of supply are not related persons i.e. if they are related persons then general provisions shall not be applicable, separate provisions shall apply.
- (3) Price is the sole consideration for the supply. i.e. if there are other factors influencing the supply, then different provisions shall apply.
- (4) All of the above

24. From the following purchases find out that purchase on which input tax credit is admissible during the month of January 2021 of XYZ Ltd.

- (1) Goods purchased without invoice.
- (2) Purchases of goods not to be used for business purposes.
- (3) Goods purchased against valid invoice from ABC Ltd. Tax has been deposited by ABC Ltd. XYZ Ltd. has made payment to ABC Ltd. for such purchases in the month of January, 2021.
- (4) Goods purchased from a composition dealer without valid invoice.

25. Compute the total input tax credit available with Bajaj Auto Ltd., manufacturer of motor cycle, in respect of the following services availed by it in the month of March, 2021 :

- Sales promotion services ₹ 40,000, Market research services ₹ 30,000 and Health insurance services provided to employees ₹ 20,000.
- (1) ₹ 90,000
  - (2) ₹ 70,000
  - (3) ₹ 50,000
  - (4) ₹ 20,000

26. GST was implemented in India from

- (1) 1<sup>st</sup> January, 2017
- (2) 1<sup>st</sup> April, 2017
- (3) 1<sup>st</sup> March, 2017
- (4) 1<sup>st</sup> July, 2017

27. IGST में 'I' से क्या आशय है ?  
 (1) Internal (2) International  
 (3) Integrated (4) Indian
28. जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 (सर्वोत्तम निर्णय) एवं धारा 63 (विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वाले) के तहत कर निर्धारण आदेश देने की समय सीमा है  
 (1) एक वर्ष  
 (2) तीन वर्ष  
 (3) पाँच वर्ष  
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
29. जीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए दायी व्यक्ति है  
 (1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा संस्थान, अथवा स्थानीय सत्ता  
 (2) सरकारी एजेंसियाँ  
 (3) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जो परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।  
 (4) उपरोक्त सभी
30. लेखों को सुरक्षित रखने की अवधि वार्षिक विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से है  
 (1) 12 माह  
 (2) 36 माह  
 (3) 72 माह  
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
31. सम्मिश्रण (समझौता) योजना \_\_\_\_\_ पर लागू नहीं है।  
 (1) अन्तर्राज्यीय बिक्री करने वाले व्यापारी  
 (2) मानव उपयोग की शराब के व्यापारी  
 (3) पान मसाला निर्माता  
 (4) उपरोक्त सभी
32. सम्मिश्रण (समझौता) योजना ऐसे लघु सेवा प्रदाताओं एवं मिश्रित आपूर्तिकर्ताओं जो आधारभूत शर्तों की पूर्ति करते हों वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर की दर होगी  
 (1) 5% (2) 6% (3) 12% (4) 18%
33. निम्नांकित में से जीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तु (माल) का पता लगाइये :  
 (1) आलू एवं प्याज  
 (2) बिस्कुट एवं चॉकलेट  
 (3) कपास का अवशिष्ट  
 (4) पान मसाला

27. What does 'I' in IGST stands for ?  
 (1) Internal (2) International  
 (3) Integrated (4) Indian
28. Time limit for passing assessment order under Section 62 of GST Act, 2017 (best judgement) and Section 63 (Non-filers) is \_\_\_\_\_.  
 (1) One year  
 (2) Three years  
 (3) Five years  
 (4) None of the above
29. Person liable to deduct tax at source under GST Act, 2017 is  
 (1) A department or establishment of the Central Government or State Government or local authority.  
 (2) Government agencies.  
 (3) Such persons or category of persons as may be notified by the government on the recommendations of the council.  
 (4) All of the above
30. Period of retention of accounts from due date of furnishing annual return is  
 (1) 12 months  
 (2) 36 months  
 (3) 72 months  
 (4) None of the above
31. Composition scheme is not applicable on  
 (1) Dealers making inter-state supply.  
 (2) Dealers of Alcoholic liquor for human consumption.  
 (3) Manufacturer of Pan Masala.  
 (4) All of the above
32. Composition scheme is applicable for such small service suppliers and mixed suppliers who satisfies the basic conditions. The Rate of Tax for financial year 2020-21 will be  
 (1) 5% (2) 6% (3) 12% (4) 18%
33. Find out tax free commodity (goods) under GST Act, 2017 out of the following :  
 (1) Potato and Onions  
 (2) Biscuits and Chocolates  
 (3) Waste Cotton  
 (4) Pan Masala

34. जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि एक व्यक्ति द्वारा देय कर की कोई राशि नहीं चुकाई गई है, तो अधिकारी निम्न तरीके से वसूल कर सकता है :
- (1) कटौती द्वारा वसूली
  - (2) माल की बिक्री द्वारा वसूली
  - (3) चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय से वसूली
  - (4) उपरोक्त सभी
35. एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) \_\_\_\_\_ माल एवं सेवा की बिक्री पर लागू है ।
- (1) अन्तर्राज्यिक बिक्री पर
  - (2) भारत के बाहर से माल एवं सेवाओं का आयात
  - (3) उपरोक्त (1) व (2) दोनों
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
36. इनपुट कर जमा \_\_\_\_\_ दी जाती है ।
- (1) जिसने भी कर चुकाया हो
  - (2) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
  - (3) कोई भी कम्पोजिशन योजना में व्यापारी
  - (4) माल एवं सेवा कर में पंजीकृत व्यापारी
37. जी.एस.टी. का न्यायिक क्षेत्र है
- (1) केन्द्रीय सरकार
  - (2) राज्य सरकार
  - (3) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार दोनों
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
38. अंकेक्षण से तात्पर्य है
- (1) लेखा पुस्तकें तैयार करना ।
  - (2) वित्तीय विवरण पत्र तैयार करना ।
  - (3) लेखों में समायोजन करना ।
  - (4) लेखा पुस्तकों की जाँच करना ।
39. अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है
- (1) राय की अभिव्यक्ति
  - (2) कपट एवं अशुद्धियों की खोज एवं रोक
  - (3) (1) एवं (2) दोनों
  - (4) अंकेक्षण के प्रकार पर निर्भर
40. किस प्रकार के अंकेक्षण में जाँच का आधार बुद्धिमानी, निष्ठा एवं मितव्ययिता होती है ?
- (1) चालू अंकेक्षण
  - (2) सामयिक अंकेक्षण
  - (3) औचित्य अंकेक्षण
  - (4) निपुणता अंकेक्षण

34. If any amount of tax payable by a person to the government under provisions of GST Act, 2017 is not paid, the officer can recover by following modes :
- (1) Recovery by deduction.
  - (2) Recovery by sale of goods.
  - (3) Recovery through sale of movable and immovable property.
  - (4) All of the above
35. Integrated Goods and Service Tax (IGST) is applicable on the Sale of Goods & Services
- (1) Inter State sale in India.
  - (2) Import of Goods & Services from out of India.
  - (3) Above (1) & (2) both
  - (4) None of the above
36. Input tax credit is allowed to
- (1) Anyone who has paid tax.
  - (2) Any registered person.
  - (3) Any composite dealer.
  - (4) Registered dealer under GST.
37. GST is a matter of jurisdiction of –
- (1) Central Government
  - (2) State Government
  - (3) Both Central and State Government
  - (4) None of the above
38. Auditing means
- (1) To prepare accounts books.
  - (2) To prepare financial statements.
  - (3) To make adjustments in accounts.
  - (4) To examine the books of accounts.
39. The main objective of Audit is
- (1) Expression of opinion.
  - (2) Detection and prevention of fraud and errors.
  - (3) Both (1) & (2)
  - (4) Depends on the type of Audit.
40. In which type of Audit checking is done on the basis of wisdom, faithfulness and economy ?
- (1) Continuous Audit
  - (2) Periodical Audit
  - (3) Propriety Audit
  - (4) Efficiency Audit

41. आन्तरिक नियन्त्रण में शामिल है  
 (1) आन्तरिक निरीक्षण  
 (2) आन्तरिक अंकेक्षण  
 (3) उपरोक्त (1) एवं (2)  
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
42. प्रमाणन में अंकेक्षक सत्यापित करता है  
 (1) केवल लेनदेन अधिकार  
 (2) केवल लेनदेन प्रामाणिकता  
 (3) लेनदेन का अधिकार एवं प्रामाणिकता दोनों  
 (4) केवल लेनदेन की गणितीय शुद्धता
43. दायित्वों का सत्यापन, निश्चय करने हेतु किया जाता है  
 (1) चिट्ठे में सम्मिलित कर लिये हैं।  
 (2) व्यापार से संबंधित है।  
 (3) सही मूल्य पर दिखाये गये हैं।  
 (4) उपरोक्त सभी
44. अंकेक्षण कार्य पत्रक सम्पत्ति है  
 (1) व्यवसाय के स्वामी की  
 (2) सरकार की  
 (3) अंकेक्षक की  
 (4) आयकर विभाग की
45. अंकेक्षण शुरू होता है, जहाँ \_\_\_ खत्म होता है।  
 (1) बिक्री  
 (2) स्टॉक मूल्यांकन  
 (3) लेखांकन  
 (4) क्रय
46. पर्यावरण अंकेक्षण भाग है  
 (1) अंकेक्षण का  
 (2) लेखांकन का  
 (3) लेखांकन एवं अंकेक्षण दोनों का  
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
47. अंकेक्षण प्रपत्रीकरण की प्रभावी तिथि है  
 (1) 1 अप्रैल, 2009  
 (2) 1 अप्रैल, 2010  
 (3) 1 अप्रैल, 2011  
 (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
48. अंकेक्षण रिपोर्ट देने का दायित्व कम्पनी अधिनियम, 2013 की किस धारा के अन्तर्गत अंकेक्षक पर डाला गया है  
 (1) धारा 139 (2) धारा 140  
 (3) धारा 141 (4) धारा 143

41. Internal control includes  
 (1) Internal Check  
 (2) Internal Audit  
 (3) Above (1) & (2) both  
 (4) None of the above
42. In vouching the Auditor verifies  
 (1) Only the right of transaction.  
 (2) Only certification of transaction.  
 (3) Right and certification of transaction, both  
 (4) Only arithmetical accuracy of transactions.
43. Verification of liabilities is done to ascertain  
 (1) Included in Balance Sheet  
 (2) Relating to Business  
 (3) Shown at Correct Value  
 (4) All of the above
44. Audit working papers are the property of  
 (1) Owner of business  
 (2) Government  
 (3) Auditor  
 (4) Income Tax Department
45. Auditing begins where \_\_\_ ends.  
 (1) Selling  
 (2) Inventory valuation  
 (3) Accounting  
 (4) Purchases
46. Environmental Audit is a part of \_\_\_  
 (1) Auditing  
 (2) Accounting  
 (3) Accounting & Auditing Both  
 (4) None of the above
47. Effective date of Audit Documentation is  
 (1) 1<sup>st</sup> April, 2009  
 (2) 1<sup>st</sup> April, 2010  
 (3) 1<sup>st</sup> April, 2011  
 (4) None of the above
48. The liability of the auditor to submit audit report of a company is stated under which Section of Companies Act, 2013 ?  
 (1) Section 139 (2) Section 140  
 (3) Section 141 (4) Section 143

49. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(40) के अनुसार, एक कम्पनी से सम्बन्धित वित्तीय विवरणों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है
- (1) वित्तीय वर्ष के अन्त का चिह्न
  - (2) लाभ और हानि का वित्तीय वर्ष का विवरण-पत्र
  - (3) वित्तीय वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण-पत्र
  - (4) वित्तीय वर्ष का कोष प्रवाह विवरण-पत्र
50. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अन्तर्गत अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर रोक नहीं है
- (1) समता अंशों पर
  - (2) अधिमान अंशों पर
  - (3) स्वेट इक्विटी अंशों पर
  - (4) उपरोक्त सभी पर
51. कम्पनी अधिनियम, 2013 की किस धारा के अन्तर्गत प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के प्रावधान दिये गये हैं ?
- (1) धारा 139
  - (2) धारा 140
  - (3) धारा 141
  - (4) धारा 142
52. एक वैधानिक अंकेक्षक को किसी भी समय जाँच-पड़ताल का अधिकार होता है
- (1) केवल कम्पनी की लेखा पुस्तकों को
  - (2) केवल कम्पनी की लेखा पुस्तकों एवं प्रलेखों को
  - (3) कम्पनी की लेखा पुस्तकों, प्रलेखों एवं प्रमाणकों को
  - (4) कम्पनी के नोटिस एवं प्रलेखों को
53. निम्नांकित विवरणों में से कौन सा विवरण चालू अंकेक्षण के लिए नहीं है ?
- (1) यह प्रतिदिन के आधार पर कार्यान्वित होता है।
  - (2) यह खर्चीला है।
  - (3) खार्तों की विस्तृत जाँच संभव है।
  - (4) इसकी आवश्यकता होती है जब संगठन में अच्छी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान हो।

49. According to Section 2(40) of Companies Act, 2013 following statement is not included in financial statements of a company
- (1) Balance Sheet of Financial Year ending.
  - (2) Statement of Profit & Loss of Financial Year.
  - (3) Cash flow statement of Financial year.
  - (4) Funds flow statement of Financial Year.
50. Restriction on issue of share at discount is not applicable according Section 53 of Companies Act, 2013
- (1) On Equity Shares
  - (2) On Preference Shares
  - (3) On Sweat Equity shares
  - (4) All of the above
51. In which Section of Companies Act, 2013 provisions of appointment of first Auditor are given ?
- (1) Section 139
  - (2) Section 140
  - (3) Section 141
  - (4) Section 142
52. A Statutory Auditor has a right of access at all times to
- (1) Only Books of accounts of the company.
  - (2) Only Books of accounts and documents of the company.
  - (3) Books of accounts, documents and vouchers of the company.
  - (4) Notices and documents of the company.
53. Which of the following statement is not true regarding continuous audit ?
- (1) It may be carried out on daily basis.
  - (2) It is expensive.
  - (3) A detailed checking of accounts is possible.
  - (4) It is needed when the organization has a good internal control system.

54. चिट्ठा अंकेक्षण में सम्मिलित नहीं है
- (1) नैत्यक जाँचें
  - (2) समायोजन प्रविष्टियों की जाँच
  - (3) सम्पत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन
  - (4) सम्पत्तियों एवं दायित्वों से सम्बन्धित आय एवं व्यय लेखों का सत्यापन
55. अंकेक्षण के आधारभूत उद्देश्य में सम्मिलित है
- (1) लेखांकन समकों की वैधता
  - (2) लेखांकन सिद्धांतों को दृढ़ता से अनुपालना
  - (3) लेखा पुस्तकों की प्रामाणिकता
  - (4) उपरोक्त सभी
56. प्रत्येक वैधानिक अंकेक्षक का अंतिम उत्पाद होता है
- (1) अंकेक्षक द्वारा जाँच किये जाने वाले दस्तावेज
  - (2) अंकेक्षक के कार्यपत्र
  - (3) अंकेक्षण कार्यक्रम
  - (4) अंकेक्षण रिपोर्ट
57. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ?
- (1) अंकेक्षक बीमक नहीं है ।
  - (2) सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है ।
  - (3) अंकेक्षक का कर्तव्य सूचना देना है ।
  - (4) अंकेक्षक क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है ।
58. न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कम्पनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है
- (1) अंकेक्षक ईमानदार होना चाहिए ।
  - (2) अंकेक्षक को पर्याप्त शुद्धता की जाँच करनी चाहिए ।
  - (3) अंकेक्षक को एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान कार्य करना चाहिए न कि शिकारी कुत्ते के समान ।
  - (4) अंकेक्षक को संदेह युक्त होकर कार्य करना चाहिए ।

54. Balance Sheet audit does not include
- (1) Routine checks.
  - (2) Checking of adjustment entries.
  - (3) Verification of assets and liabilities.
  - (4) Verification of income and expenses accounts related to assets and liabilities.
55. Basic purpose of auditing covers
- (1) Validity of accounting data.
  - (2) Adherence to accounting principles.
  - (3) Authenticity of books of accounts.
  - (4) All of the above
56. Final product of every Statutory Auditor is
- (1) Documents of the Auditor used to examine.
  - (2) Working papers of Auditor.
  - (3) Audit Programme.
  - (4) Audit Report.
57. Which statement from the following statements is wrong ?
- (1) Auditor is not an insurer.
  - (2) To give advice is not duty of an auditor.
  - (3) Duty of an auditor is to give information.
  - (4) Auditor is liable to give compensation.
58. Which is not the duty of a company auditor on the basis of court decisions ?
- (1) Auditor should be honest.
  - (2) Auditor should check substantial accuracy.
  - (3) Auditor should work as a watch dog and not a bloodhound.
  - (4) Auditor should work with suspicion.

59. वैधानिक अंकेक्षक द्वारा यदि आन्तरिक निरीक्षक पर विश्वास किया जाये तो अंकेक्षण प्रतिवेदन में अशुद्धियाँ रहने पर कौन जिम्मेदार होगा ?
- (1) वैधानिक अंकेक्षक
  - (2) प्रबन्ध
  - (3) अंशधारी
  - (4) आन्तरिक अंकेक्षक
60. लागत / परिव्यय अंकेक्षण में \_\_\_ शामिल नहीं है।
- (1) निष्पत्ति अंकेक्षण
  - (2) औचित्य अंकेक्षण
  - (3) निपुणता अंकेक्षण
  - (4) सामयिक अंकेक्षण
61. कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 128 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार निम्न गतिविधियों में लगी कम्पनियों के लिए लागत अंकेक्षण आदेश जारी कर सकती है :
- (1) उत्पादन, प्राविधि एवं निर्माण
  - (2) खनन
  - (3) सीमेन्ट, साइकिल एवं टायर-ट्यूब
  - (4) उपरोक्त सभी
62. लागत अंकेक्षण \_\_\_\_\_ उद्देश्य के लिए है।
- (1) लागत नियंत्रण
  - (2) लागत न्यूनीकरण
  - (3) सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग
  - (4) उपरोक्त सभी
63. कौन सी बैंक अंकेक्षण की विशेषता नहीं है ?
- (1) समस्त व्यय एवं आयों का लेखांकन यथावत कर लिया गया है तथा सही लाभ ज्ञात कर लिये गये हैं।
  - (2) गैर-निष्पादित संपत्तियों के संबंध में प्रतिवेदित करना बैंक अंकेक्षण की विशेषता नहीं है।
  - (3) बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में बैंक अंकेक्षण का प्रावधान है।
  - (4) अंकेक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में यह प्रमाणित करना कि बैंक का चिट्ठा बैंक की सत्य एवं सही स्थिति बताता है।

59. Who will be responsible for errors in Audit Report if Statutory Auditor relies on the work of Internal Auditor ?
- (1) Statutory Auditor
  - (2) Management
  - (3) Shareholders
  - (4) Internal Auditor
60. Cost audit does not cover
- (1) Performance Audit
  - (2) Propriety Audit
  - (3) Efficiency Audit
  - (4) Periodical Audit
61. Central government can issue order for cost audit to those companies which are engaged in following activities under Section 128 of Companies Act, 2013.
- (1) Production, processing and manufacturing.
  - (2) Mining
  - (3) Cement, Cycle and Tyre-Tube
  - (4) All of the above
62. Cost audit is for the purpose of
- (1) Cost control.
  - (2) Cost reduction.
  - (3) Proper utilization of scarce resources.
  - (4) All of the above
63. Which is not a feature of Bank Audit ?
- (1) All expenses & income have been duly accounted for and profit is correctly worked out.
  - (2) Reporting regarding non-performing assets is not a feature of Bank Audit.
  - (3) Provision of Bank Audit is in Banking Regulation Act, 1949.
  - (4) The Auditors have to certify that Balance Sheet of the Bank at the closure of Financial year reveal true and fair view of the Bank.

64. किस कम्पनी के अंकेक्षण को चिट्ठा अंकेक्षण कहते हैं ?

- (1) बीमा कम्पनी
- (2) बैंकिंग कम्पनी
- (3) सूत्रधारी कम्पनी
- (4) विद्युत कम्पनी

65. बीमा अंकेक्षण के सन्दर्भ में कौन सा कथन असत्य है ?

- (1) बीमा अंकेक्षण में आय एवं व्यय का प्रमाणन आवश्यक है।
- (2) अंकेक्षक को संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन करना चाहिए।
- (3) अंकेक्षक बीमा नियामक खण्ड विकास अधिनियम, 1999 के प्रावधानों से परिचित नहीं है।
- (4) अंकेक्षक द्वारा बीमा अंकेक्षण यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि ग्राहकों द्वारा अपनी प्रदत्त जोखिम का समुचित प्रीमियम दे दिया गया है।

66. बैंक अंकेक्षण के बारे में प्रावधान बैंकिंग नियमन अधिनियम \_\_\_\_\_ में दिये गए हैं।

- (1) 1947
- (2) 1949
- (3) 1980
- (4) 1999

67. बीमा कम्पनियों के खातों के रख-रखाव एवं अंकेक्षण के बारे में प्रावधान किए गए हैं

- (1) कम्पनी अधिनियम, 2013 में
- (2) बीमा अधिनियम में
- (3) सेबी नियम के अन्तर्गत
- (4) बीमा विनियामक एवं विकास अधिनियम, 1999 में

64. Of which company audit is known as Balance Sheet Audit ?

- (1) Insurance Company
- (2) Banking Company
- (3) Holding Company
- (4) Electricity Companies

65. Which statement is incorrect about Insurance Audit ?

- (1) Vouching of Income and Expenditure are necessary for Insurance Audit.
- (2) Auditor should do verification of Assets and Liabilities.
- (3) The Auditor is not be conversant with the provisions of the Insurance Regulatory and Development Act, 1999.
- (4) Auditor performs an insurance audit to ensure that the customer has paid the appropriate premium for risk covered to him.

66. The provisions regarding audit of banks are contained in Banking Regulation Act of \_\_\_\_\_.

- (1) 1947
- (2) 1949
- (3) 1980
- (4) 1999

67. The provisions regarding maintenance of accounts and audit of Insurance company are made under \_\_\_\_\_.

- (1) Companies Act, 2013
- (2) Insurance Act
- (3) SEBI Rules
- (4) Insurance Regulatory and Development Act, 1999

68. धर्मार्थ ट्रस्ट के अंकेक्षण के सन्दर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए।

- (1) ट्रस्ट अंकेक्षण ट्रस्ट के निर्माणकर्ता एवं लाभार्थी को विश्वास दिलाता है कि वे सभी विश्वसनीय हैं।
- (2) भारत में आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत सार्वजनिक ट्रस्ट की निश्चित आयों को उनकी करयोग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- (3) अंकेक्षक को नकद व बैंक में शेष तथा विनियोगों एवं अन्य संपत्तियों का सत्यापन करना चाहिए।
- (4) बहुत से सार्वजनिक ट्रस्ट अपने लेखों का अंकेक्षण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत करवाते हैं।

69. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) के अन्तर्गत वित्तीय विवरण पत्रों के लिए निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर दण्ड के प्रावधान हैं

- (1) एक अवधि जो एक वर्ष तक का कारावास
- (2) ₹ 50,000 से ₹ 5,00,000 तक का जुर्माना
- (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
- (4) उपरोक्त सभी

70. कम्पनी अधिनियम, 2013 की किस धारा में लेखा पुस्तकों के रख-रखाव के प्रावधान दिये गये हैं?

- (1) धारा 128
- (2) धारा 129
- (3) धारा 134
- (4) धारा 140

71. एक अंकेक्षक को शिक्षण संस्था का अंकेक्षण करते समय किन बातों को देखना चाहिए?

- (1) नियमों एवं अधिनियमों की जाँच
- (2) संस्था की आय एवं व्यय
- (3) संस्था की संपत्तियाँ एवं दायित्व
- (4) उपरोक्त सभी

68. Identify the incorrect statement with reference to charitable trust audit.

- (1) Trust audit assures the creators of trust and those beneficiaries are reliable.
- (2) In India the Income Tax Act, 1961, provides for non-inclusion of certain incomes of public trust in their taxable income.
- (3) Auditor should verify cash & Bank Balance, Investments and other assets.
- (4) Many public trust get their accounts audited pursuant to the requirement of Income Tax Act, 1961.

69. Penalties for contravention of prescribed norms for financial statements under Section 129(7) of Companies Act, 2013 are

- (1) Imprisonment for a term upto one year.
- (2) Fine from ₹ 50,000 to ₹ 5,00,000.
- (3) Above (1) and (2) both
- (4) All of the above

70. Under which Section of Companies Act, 2013 provisions for maintenance of Accounts are given?

- (1) Section 128
- (2) Section 129
- (3) Section 134
- (4) Section 140

71. On which matter an auditor should focus at the time of audit of Educational Institution?

- (1) Test of Acts and Rules
- (2) Income & Expenditure of Institution
- (3) Assets & Liabilities of Institution
- (4) All of the above

72. कुशलता अंकेक्षण में निम्नांकित का अंकेक्षण किया जाता है :

- (1) मानव संसाधनों की कुशलता
- (2) संयंत्र एवं मशीन की कार्यक्षमता के प्रयोग की जाँच
- (3) पूँजी के कुशल उपयोग की जाँच
- (4) उपरोक्त सभी

73. प्रबन्ध अंकेक्षण के सन्दर्भ में सही कथन की पहचान करें ।

- (1) यह प्रबन्ध निष्पत्ति का मूल्यांकन है ।
- (2) प्रबन्ध अंकेक्षण को प्रबन्ध का अंकेक्षण परिभाषित किया है ।
- (3) प्रबन्ध अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है ।
- (4) उपरोक्त सभी

74. ईडीपी अंकेक्षण में आंतरिक नियंत्रण के लिए क्या एक महत्वपूर्ण पहलू है ?

- (1) प्रशासनिक नियन्त्रण
- (2) प्रणाली विकास नियन्त्रण
- (3) प्रक्रियात्मक नियन्त्रण एवं संगठनात्मक नियंत्रण
- (4) उपरोक्त सभी

75. निष्पत्ति अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू है

- (1) प्रबन्ध अंकेक्षण का
- (2) लागत अंकेक्षण का
- (3) वित्तीय अंकेक्षण का
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

76. सामाजिक अंकेक्षण में एक उपक्रम के निम्न श्रेणियों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है :

- (1) वातावरण से संबंध
- (2) उत्पाद के साथ सम्बन्ध
- (3) विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संबंध
- (4) उपरोक्त सभी

72. In efficiency audit, audit is conducted of the following :

- (1) Skill of human resources.
- (2) Check the use of Plant & Machinery capacity.
- (3) Check the efficient use of capital.
- (4) All of the above

73. Identify the correct statement in reference to management audit.

- (1) It is appraisal of management performance.
- (2) Management audit may be defined as 'Audit of Management'.
- (3) Management audit is not mandatory.
- (4) All of the above

74. What is an important aspect for internal control in EDP Audit ?

- (1) Administrative Control.
- (2) System Development Controls.
- (3) Procedural control & Organisational control.
- (4) All of the above

75. Performance Audit is an important aspect of

- (1) Management Audit
- (2) Cost Audit
- (3) Financial Audit
- (4) None of the above

76. In Social Audit activities of an enterprise are studied in following category :

- (1) Relation with Environment.
- (2) Relation with Product.
- (3) Relation with public of different Group.
- (4) All of the above

77. अंकेक्षण की एक विशेषता है
- (1) एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा लेखा पुस्तकों की जाँच ।
  - (2) व्यवस्थित तरीके से लेखा पुस्तकों की जाँच ।
  - (3) एक अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
  - (4) उपरोक्त सभी
78. बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की पूर्ण एवं व्यापक परिभाषा किसने दी है ?
- (1) डॉ. बाउले
  - (2) होरेस सिक्राइस्ट
  - (3) यूल एवं कैण्डाल
  - (4) वेबस्टर
79. समंकों बनाये जाते हैं
- (1) एकल संख्या द्वारा
  - (2) असम्बद्ध तथ्यों के समूह द्वारा
  - (3) सजातीय तथ्यों एवं संख्याओं के समूह द्वारा
  - (4) एकमात्र निरपेक्ष वर्णनात्मक तथ्य द्वारा
80. समंकों से सिर्फ निम्न परिस्थिति में ही सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :
- (1) उन पर कदापि विश्वास नहीं करके ।
  - (2) उन पर अत्यधिक विश्वास करके ।
  - (3) उनका बुद्धिमता एवं तर्कसंगत निर्वचन करके ।
  - (4) इनमें से कोई नहीं
81. तैयार कपड़ों के माध्य आकार के लिए कौन सा माध्य उपयुक्त होगा ?
- (1) समान्तर माध्य
  - (2) बहुलक
  - (3) मध्यका
  - (4) गुणोत्तर माध्य

77. A feature of auditing is
- (1) Examination of books of Accounts by an independent person.
  - (2) Systematic examination of books of accounts.
  - (3) Presentation of report by an Auditor.
  - (4) All of the above
78. Who has given the complete and exhaustive definition of Statistics in plural sense ?
- (1) Dr. Bowley
  - (2) Horace Scrist
  - (3) Yule & Kendall
  - (4) Webster
79. Data are formed by
- (1) a single figure.
  - (2) a group of unrelated facts.
  - (3) a group of homogeneous facts and figures.
  - (4) an absolute descriptive fact.
80. Only in the following situation can true conclusions be drawn from statistical data :
- (1) By not trusting them at all.
  - (2) By putting excessive trust in them.
  - (3) By interpreting them wisely and logically.
  - (4) None of the above.
81. Which average would be suitable average for size of readymade garments ?
- (1) Arithmetic Mean
  - (2) Mode
  - (3) Median
  - (4) Geometric Mean

82. किस माध्य में चरम मूल्यों का उच्चतम प्रभाव पड़ता है ?

- (1) समान्तर माध्य
- (2) मध्यका
- (3) बहुलक
- (4) गुणोत्तर माध्य

83. सूचकांकों की गणना में सर्वाधिक उपयुक्त माध्य है

- (1) समान्तर माध्य
- (2) मध्यका
- (3) हरात्मक माध्य
- (4) गुणोत्तर माध्य

84. व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग शून्य होता है

- (1) समान्तर माध्य से
- (2) बहुलक से
- (3) मध्यका से
- (4) गुणोत्तर माध्य से

85. कौन सा अपकिरण माप एक आदर्श एवं वैज्ञानिक है ?

- (1) विस्तार
- (2) चतुर्थक विचलन
- (3) प्रमाप विचलन
- (4) इनमें से कोई नहीं

86. दो श्रेणियों में विचरण की तुलना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं ?

- (1) विस्तार गुणांक
- (2) चतुर्थक विचलन गुणांक
- (3) विचरण गुणांक
- (4) उपरोक्त में से कोई एक

87. विषमता का द्वितीय माप आधारित है

- (1) समान्तर माध्य, बहुलक, मध्यका एवं माध्य विचलन पर
- (2) समान्तर माध्य, मध्यका, बहुलक एवं प्रमाप विचलन पर
- (3) चतुर्थक एवं मध्यका पर
- (4) इनमें से कोई नहीं

82. In which average the effect of extreme values is the highest ?

- (1) Arithmetic Mean
- (2) Median
- (3) Mode
- (4) Geometric Mean

83. The most appropriate average to be used while constructing index number is

- (1) Arithmetic mean
- (2) Median
- (3) Harmonic Mean
- (4) Geometric Mean

84. The sum of deviations of individual observations is zero from

- (1) Arithmetic mean
- (2) Mode
- (3) Median
- (4) Geometric Mean

85. Which measurement of dispersion is an ideal and scientific ?

- (1) Range
- (2) Quartile deviation
- (3) Standard deviation
- (4) None of these

86. Which method is used for comparison of variation in two series ?

- (1) Coefficient of Range
- (2) Coefficient of Quartile Deviation
- (3) Coefficient of Variation
- (4) Any one from above

87. Second measure of skewness is based on

- (1) Arithmetic Mean, Mode, Median and Mean Deviation.
- (2) Arithmetic Mean, Median, Mode and Standard Deviation.
- (3) Quartiles and Median.
- (4) None of these

88. शेपर्ड के संशोधन की आवश्यकता होती है जब
- (1) आवृत्ति वितरण अविच्छन्न श्रेणी के रूप में हो।
  - (2) आवृत्तियाँ दोनों ओर लगातार घटकर शून्य हो जायें।
  - (3) कुल आवृत्तियाँ लगभग 1,000 से कम नहीं हों।
  - (4) उपरोक्त सभी दशाएँ पूरी हों।
89. किन परिघातों के लिए शेपर्ड का संशोधन आवश्यक है ?
- (1) परिघात 1 एवं 2
  - (2) परिघात 2 एवं 3
  - (3) परिघात 3 एवं 4
  - (4) परिघात 2 एवं 4
90. यदि  $\beta_2 = 3$  हो तो आवृत्ति वक्र जाना जाता है
- (1) लम्बे या नुकीले शीर्ष वाला
  - (2) चपटे या सपाट शीर्ष वाला
  - (3) मध्यम शीर्ष वाला या सामान्य
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
91. फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है, क्योंकि
- (1) यह परिवर्तनशील भारों पर आधारित है।
  - (2) इस सूत्र में गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है।
  - (3) यह उत्क्राम्यता परीक्षाएँ - समय उत्क्राम्यता परीक्षा एवं तत्त्व उत्क्राम्यता परीक्षा के गुण को पूरा करता है।
  - (4) ये सभी
92. तत्त्व उत्क्राम्यता परीक्षण पूरा उतरता है जब
- (1)  $P_{01} \times Q_{01} = 1$
  - (2)  $P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$
  - (3)  $P_{01} \times P_{10} = 1$
  - (4)  $P_{01} \times P_{12} \times P_{20} = 1$

88. Sheppard's correction is required when
- (1) Frequency distribution is in continuous series.
  - (2) Frequency tapers off to zero in both directions.
  - (3) Total frequency is not less than 1,000 approx.
  - (4) All of the above conditions fulfill.
89. For which moments Sheppard correction is necessary ?
- (1) Moments 1 & 2
  - (2) Moments 2 & 3
  - (3) Moments 3 & 4
  - (4) Moments 2 & 4
90. If  $\beta_2 = 3$  frequency curve is known as
- (1) Lepto-Kurtic or peaked topped.
  - (2) Platy-Kurtic or flat topped.
  - (3) Meso-Kurtic or normal.
  - (4) None of the above
91. Fisher's Index Number is called Ideal Index Number because
- (1) It is based on fluctuating weights.
  - (2) Geometric mean is used in this formula.
  - (3) It fulfills the qualities of reversibilities - Time reversal test and factor reversal test.
  - (4) All of the above
92. Factor reversal test is satisfied when
- (1)  $P_{01} \times Q_{01} = 1$
  - (2)  $P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$
  - (3)  $P_{01} \times P_{10} = 1$
  - (4)  $P_{01} \times P_{12} \times P_{20} = 1$

93. काल श्रेणी के सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति के मापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है

- (1) मुक्त-हस्त वक्र रीति
- (2) अर्द्ध-मध्यक रीति
- (3) चल माध्य रीति
- (4) न्यूनतम वर्ग रीति

94. ऋतुकालिक विचरण \_\_\_\_\_ के कारण होते हैं।

- (1) व्यापार चक्र
- (2) जलवायु, रीति-रिवाज एवं परम्पराओं में परिवर्तन
- (3) जनसंख्या वृद्धि
- (4) तकनीकी विकास

95. भारत की 2021 की जनसंख्या का बाह्यगणन करने के लिए किस बीजगणितीय रीति को लागू करेंगे जब  $X$  चर बराबर अन्तर से यानि 1981, 1991, 2001 एवं 2011 की जनसंख्या दी हुई हो ?

- (1) न्यूटन की प्रगामी अन्तर विधि
- (2) परवल्यिक वक्र विधि
- (3) प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि
- (4) उपरोक्त में से कोई एक

96. अन्तरगणन एवं बाह्यगणन की किस विधि का प्रयोग करेंगे जब एक चर में पदों की संख्या कम (3 या 4) हो और स्वतन्त्र चल मूल्यों में अधिकतर समान व थोड़ा अन्तर हो ?

- (1) प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति
- (2) न्यूटन की प्रगामी-अन्तर रीति
- (3) लाग्रेंज की रीति
- (4) परवल्यिक-वक्र रीति

93. The best method of measuring the secular trend refers to a long-time tendency of time series is

- (1) Free hold curve method
- (2) Semi Average method.
- (3) Moving Average method
- (4) Method of least squares

94. Seasonal variations are caused by

- (1) Business cycles.
- (2) Change in climate, customs and traditions.
- (3) Growth of population.
- (4) Technological development

95. Which algebraic method would you apply for extrapolating the population of India in year 2021, when equidistant of  $X$  variable i.e. population of 1981, 1991, 2001 and 2011 is given ?

- (1) Newton's advancing differences method.
- (2) Parabolic curve method.
- (3) Direct Binomial expansion method.
- (4) Any one from above.

96. Which method of interpolation and extrapolation is to be used when the number of items in a variable are less i.e. 3 or 4 and difference in independent variable is either uniform or is too less ?

- (1) Direct Binomial Expansion Method
- (2) Newton's Method of Advancing Differences
- (3) Lagrange's Method
- (4) Parabolic Curve Method

97. सहसम्बन्ध का सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। क्यों ?

- (1) दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में
- (2) उनमें पारस्परिक सम्बन्ध का परीक्षण तथा विवेचन करने में
- (3) पूर्वानुमान लगाने में
- (4) ये सभी

98. सहसम्बन्ध के सिद्धांत को विकसित करने एवं वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है

- (1) प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री सर फ्रांसिस गाल्टन
- (2) कार्ल पियर्सन
- (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
- (4) फ्रांसिस खगोलशास्त्री ब्रावे

99. सह-सम्बन्ध विश्लेषण के अन्तर्गत दो या अधिक सम्बन्धित चर के सह-सम्बन्ध का अध्ययन किया जा सकता है

- (1) दो सम्बन्धित चर-मूल्यों में कितना एवं किस प्रकार का संबंध है।
- (2) सह-सम्बन्ध का प्रभाव अनुमानों की अनिश्चितता के विस्तार को कम करना है।
- (3) सह-सम्बन्ध विश्लेषण पर आधारित अनुमान अधिक विश्वसनीय और निश्चयात्मक होते हैं।
- (4) ये सभी

100. सांख्यिकी में प्रतीगमन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको है ?

- (1) कार्ल पियर्सन
- (2) सर फ्रांसिस गाल्टन
- (3) बाउले
- (4) वालिस एवं रोबर्ट्स

97. Principle of correlation prove to be very useful, why ?

- (1) Comparative study of two or more than two related events.
- (2) To examine and discuss for mutual relationship between them.
- (3) To predict or forecast.
- (4) All of the above

98. Development of the principle of correlation in the present form, the credit goes to

- (1) Renowned Biologist Sir Francis Galton
- (2) Karl Pearson
- (3) Above (1) & (2) both
- (4) French Astronomer Bravais

99. Correlation between two or more related variables can be studied under correlation analysis

- (1) Find out the quantity and type of correction between two related variables.
- (2) The effect of correlation is to reduce the range of uncertainty of the predictions.
- (3) Predictions based on correlation analysis are quite believable and certain.
- (4) All of the above

100. Who propounded the theory of regression in statistics ?

- (1) Karl Pearson
- (2) Sir Francis Galton
- (3) Bowley
- (4) Walis and Roberts

101. प्रतीगमन रेखाओं का उपयोग \_\_\_\_\_ जानने के लिए करते हैं।
- (1) सर्वोपयुक्त अनुमान
  - (2) सहसम्बन्ध की मात्रा एवं दिशा
  - (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
102. बहुगुणी प्रतीगमन में निम्न सामग्री का अध्ययन करते हैं :
- (1) दो या अधिक चरों के निश्चित मूल्य पर आश्रित चर के सर्वोत्तम मूल्य का अनुमान करने हेतु बहुगुणी रेखीय प्रतीगमन का अध्ययन किया जाता है।
  - (2) सरल रेखीय प्रतीगमन का विस्तृत रूप ही बहुगुणी रेखीय प्रतीगमन कहलाता है।
  - (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
103. एक देश की मानव आबादी के आकार, बनावट एवं विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन निम्नांकित विधि से किया जा सकता है :
- (1) जनगणना
  - (2) जन्म-मरण संबंधी आंकड़ों का पंजीयन
  - (3) जनसंख्या का अध्ययन सर्वेक्षण की सामयिक व्यवस्था
  - (4) ये सभी
104. जन्म-मरण समकों में शामिल है
- (1) एक निश्चित समयावधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों का गति दृश्य
  - (2) यह जन घटनाओं को प्रस्तुत करता है।
  - (3) जनसंख्या विकास के नापने के लिए उर्वरता, मृत्यु तथा पुनरोत्पादन का विश्लेषण
  - (4) उपरोक्त सभी
105. सकारात्मक एवं नकारात्मक गुणों के लिए \_\_\_\_\_ संकेतांक का प्रयोग करते हैं।
- (1) A, B, C
  - (2) a, b, c
  - (3)  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  (Alpha, Beta and Gamma)
  - (4) उपरोक्त सभी

101. Regression lines are used to know
- (1) The best estimates.
  - (2) Degree and direction of correlation.
  - (3) Above (1) & (2) both
  - (4) None of the above
102. In multiple regression following matter are studied :
- (1) Multiple linear regression is studied to estimate the best value of dependent variable on definite value of two or more independent variable.
  - (2) Detailed shape of simple linear regression is called multiple linear regression.
  - (3) Above (1) & (2) both
  - (4) None of the above
103. A detailed study about the size, composition and growth of human population for any country may be by following method
- (1) Population census
  - (2) Registration of Vital Statistics
  - (3) Adhoc Demographic Surveys
  - (4) All of the above
104. Vital statistics covers
- (1) Motion picture of changes in population during a particular period of time.
  - (2) It presents record of vital events.
  - (3) Fertility, deaths and reproduction are analyzed.
  - (4) All of the above
105. Notations used for Positive and Negative attributes are
- (1) A, B, C
  - (2) a, b, c
  - (3)  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  (Alpha, Beta and Gamma)
  - (4) All of the above

106. गुण-साहचर्य की सामग्री है
- (1) चर समंक
  - (2) गुण समंक
  - (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
  - (4) इनमें से कोई नहीं
107. पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णयन के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं ?
- (1) रैखिक कार्यक्रम
  - (2) आदा-प्रदा विश्लेषण एवं स्कन्ध प्रतिरूप
  - (3) लागत-मात्रा लाभ विश्लेषण
  - (4) उपरोक्त सभी
108. अनिश्चितता की स्थिति में कौन सी निर्णय कसौटी का प्रयोग होता है ?
- (1) अधिकतम में से अधिकतम कसौटी
  - (2) न्यूनतम में से अधिकतम कसौटी
  - (3) अधिकतम में से न्यूनतम विकल्प त्याग लागत कसौटी
  - (4) उपरोक्त सभी
109. सैद्धान्तिक आवृत्ति बंटन तैयार किया जाता है
- (1) कुछ निश्चित पूर्व कल्पनाओं
  - (2) मान्यताओं का पालन
  - (3) प्रायिकता नियमों का पालन
  - (4) उपरोक्त में से कोई भी
110. कौन सा सैद्धान्तिक आवृत्ति बंटन अविच्छिन्न आवृत्ति बंटन है ?
- (1) द्विपद बंटन
  - (2) प्वाँयसाँ बंटन
  - (3) प्रसामान्य बंटन
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
111. 'प्रयोगों की अभिकल्पना' का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में किया गया ?
- (1) कृषि
  - (2) उद्योग
  - (3) प्रशासन
  - (4) परिवहन

106. Matter of association of attributes is
- (1) Statistics of variable
  - (2) Statistics of attributes
  - (3) Above (1) and (2) both
  - (4) None of the above
107. Which technique is used in decision making under certainty ?
- (1) Linear programming.
  - (2) Input-output analysis and inventory models.
  - (3) Cost-volume profit Analysis.
  - (4) All of the above
108. Which decision criterion is used in decision making under uncertainty ?
- (1) Maxi-Max criterion
  - (2) Maxi-Min criterion
  - (3) Mini-Max Regret criterion
  - (4) All of the above
109. Theoretical frequency distribution are prepared under
- (1) Certain hypothesis
  - (2) Following assumption
  - (3) Following probability rules
  - (4) Any one from the above
110. Which theoretical frequency distribution is continuous frequency distribution ?
- (1) Binomial distribution
  - (2) Poisson distribution
  - (3) Normal distribution
  - (4) None of the above
111. In which area 'Design of Experiments' was used first ?
- (1) Agriculture
  - (2) Industries
  - (3) Administration
  - (4) Transport

112. प्रयोगों की अभिकल्पना में कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली प्रयुक्त होती है ?

- (1) प्रयोग
- (2) प्रारूप या अभिकल्पना
- (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

113. प्रयोगों की अभिकल्पना से सम्बन्धित विचारधारा का सूत्रपात एवं विकसित किसके द्वारा की गई ?

- (1) कार्ल पियर्सन
- (2) प्रो. आर.ए. फिशर
- (3) बाउले
- (4) सर फ्रांसिस गाल्टन

114. लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता है ?

- (1)  $\frac{1}{7}$
- (2)  $\frac{2}{7}$
- (3)  $\frac{3}{7}$
- (4)  $\frac{4}{7}$

115. सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण में क्या निर्णय लिये जाते हैं ?

- (1) उत्पादित की जाने वाली वस्तु का निर्दिष्टीकरण
- (2) वस्तु का वास्तविक निर्माण किस प्रकार होना है।
- (3) निर्मित वस्तु पूर्व-निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है या नहीं।
- (4) उपरोक्त सभी

116. सांख्यिकीय गुण नियंत्रण की कौन सी प्रविधियाँ हैं ?

- (1) विधि नियन्त्रण संचित्र
- (2) उत्पाद नियन्त्रण संचित्र
- (3) (1) एवं (2) दोनों
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

117. परिवहन के क्षेत्र में रेखीय कार्यक्रम की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है ?

- (1) रेखाचित्र विधि
- (2) सिम्पलैक्स विधि
- (3) परिवहन विधि
- (4) उपरोक्त (2) एवं (3) दोनों

112. Which important terms are used in Design of Experiments ?

- (1) Experiment
- (2) Design
- (3) Above (1) & (2) both
- (4) None of the above

113. Who propounded and developed concept related with Design of experiments ?

- (1) Karl Pearson
- (2) Prof. R.A. Fisher
- (3) Bowley
- (4) Sir Francis Galton

114. In leap year what is the probability to be 53 Mondays ?

- (1)  $\frac{1}{7}$
- (2)  $\frac{2}{7}$
- (3)  $\frac{3}{7}$
- (4)  $\frac{4}{7}$

115. What decisions are to be taken in statistical Quality Control ?

- (1) Specification of articles to be produced.
- (2) How the articles actually produced.
- (3) Articles produced resemble with predetermined standards or not.
- (4) All of the above

116. What are the techniques of statistical Quality Control ?

- (1) Process Control Charts.
- (2) Product Control Charts.
- (3) Both (1) & (2)
- (4) None of the above

117. Which programming is used in transportation sector ?

- (1) Graphical Method
- (2) Simplex Method
- (3) Transportation method
- (4) Above (2) & (3) both

118. बड़े प्रतिदर्श का आकार क्या है ?

- (1) यदि इसका आकार 10 से अधिक हो ।
- (2) यदि इसका आकार 30 से अधिक हो ।
- (3) यदि इसका आकार 100 से अधिक हो ।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

119. बड़े प्रतिदर्श में गुण समकों के लिए कौन से सार्थकता परीक्षणों की विवेचना की गई है ?

- (1) सफलता की संख्या के लिए जाँचें
- (2) सफलता के आपेक्षिक भाग के लिए जाँचें
- (3) अनुपातों के बीच अन्तर के लिए जाँचें
- (4) उपरोक्त सभी

120. t-test की मान्यताएँ हैं

- (1) समष्टि जिससे छोटा प्रतिदर्श चुना गया है प्रसामान्य है ।
- (2) प्रतिदर्श यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा चयनित किया गया है ।
- (3) समष्टि का प्रमाप विचलन अविदित है ।
- (4) उपरोक्त सभी

121. एफ-जाँच एवं टी-जाँच संबंधित है

- (1) छोटे प्रतिदर्श की सार्थकता जाँच
- (2) बड़े प्रतिदर्श की सार्थकता जाँच
- (3) (1) एवं (2) दोनों
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

122. द्विमागीय वर्गीकरण में प्रसरण विश्लेषण करते समय कौन से भागों का अध्ययन करना पड़ता है ?

- (1) अन्तः स्तम्भ वर्ग योग – एस एस सी
- (2) अन्तः पंक्ति वर्ग योग – एस एस आर
- (3) अवशिष्ट वर्ग योग – एस एस ई
- (4) उपरोक्त सभी

118. What is the size of large sample ?

- (1) If its size exceeds 10.
- (2) If its size exceeds 30.
- (3) If its size exceeds 100.
- (4) None of the above

119. Which tests of significance for attributes are discussed in large sampling ?

- (1) Tests for number of successes.
- (2) Tests for proportion of successes.
- (3) Tests for difference between proportions.
- (4) All of the above

120. Assumptions of t-test are

- (1) The population from which small sample has been selected is normal.
- (2) The samples are taken by random sampling method.
- (3) The standard deviation of population is unknown.
- (4) All of the above

121. F-test, T-test are related to

- (1) Significance test of small sample.
- (2) Significance test of large sample.
- (3) Both (1) & (2)
- (4) None of the above

122. Which parts are to be studied at the time of analysis of variance in two-way classification ?

- (1) Sum of squares between columns – SSC.
- (2) Sum of squares between Rows – SSR.
- (3) Sum of squares of the Residual – SSE.
- (4) All of the above

123. नेटवर्क विश्लेषण की क्या प्राविधियाँ हैं ?

- (1) कार्यक्रम मूल्यांकन एवं तकनीक समीक्षा
- (2) आलोचनात्मक पथ विधि
- (3) GERT
- (4) उपरोक्त सभी

124. प्रतिस्थापन परिस्थितियों के क्या-क्या प्रकार हैं ?

- (1) उपयोग एवं समय के साथ-साथ नष्ट होने वाली मदों का प्रतिस्थापन
- (2) ऐसी मदों का प्रतिस्थापन जो अचानक क्षतिग्रस्त हो जायें।
- (3) मनुष्यों का प्रतिस्थापन
- (4) उपरोक्त सभी

125. खेल सिद्धान्त \_\_\_\_\_ पर लागू होता है।

- (1) खेल-कूद
- (2) व्यवसाय, उद्योग, राजनीति तथा अर्थशास्त्र
- (3) सैन्य क्रियाएँ
- (4) उपरोक्त सभी

126. गैर-प्रतिचयन त्रुटि के क्या कारण हैं ?

- (1) समकों के संग्रहण एवं सारणीयन के दोषयुक्त तरीके।
- (2) समग्र अथवा प्रतिदर्श का अधूरा क्षेत्र
- (3) दोषयुक्त नियोजन, अपर्याप्त तथा अस्थिर निष्पक्षता
- (4) उपरोक्त सभी

127. प्रतिदर्श त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं ?

- (1) अभिनत त्रुटियाँ
- (2) अनभिनत त्रुटियाँ
- (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

123. What are the techniques of Network Analysis ?

- (1) Programme Evaluation and Review Technique.
- (2) Critical Path Method.
- (3) GERT
- (4) All of the above

124. What are the types of replacement situations ?

- (1) Replacement of items deteriorating gradually with use and time.
- (2) Replacement of items breaking down suddenly.
- (3) Replacement of human beings.
- (4) All of the above

125. Game theory is applicable on

- (1) Games & Sports
- (2) Business, Industry, Politics and Economics
- (3) Military operations
- (4) All of the above

126. What are the causes of non-sampling errors ?

- (1) Defective methods of data collection and tabulation.
- (2) Incomplete coverage of the population or sample.
- (3) Faulty planning, inadequate and inconsistent objectivity.
- (4) All of the above

127. What are the types of sampling errors ?

- (1) Biased errors.
- (2) Unbiased errors.
- (3) Above (1) & (2) both
- (4) None of the above

128. कौन सी आयों पर धारा 80 C से 80 U के अन्तर्गत कटौतियाँ लागू नहीं हैं ?

- (1) दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन पूँजी लाभ
- (2) आकस्मिक आय
- (3) छिपाये गये साधनों से आय
- (4) उपरोक्त सभी

129. निम्नलिखित में से किस आय पर किसी भी खर्च को नहीं घटाया जाता है, आय में से हानियों की पूर्ति नहीं की जायेगी तथा धारा 80 C से 80 U तक कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

- (1) पूँजीगत लाभ
- (2) आकस्मिक आय
- (3) वेतन
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

130. कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से नयी धारा 115 BAC जोड़ी गयी है जिसके द्वारा एक नयी कराधान प्रणाली लागू की गई है। यह धारा लागू होती है :

- (1) व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार
- (2) फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय
- (3) कम्पनी
- (4) उपरोक्त सभी

131. \_\_\_\_\_ के जीवन पर ली गई पॉलिसी पर दिये गये जीवन बीमा प्रीमियम की धारा 80 C के अन्तर्गत कटौती नहीं मिलती है।

- (1) करदाता के जीवन पर
- (2) जीवनसाथी के जीवन पर
- (3) पिता के जीवन पर
- (4) बच्चों के जीवन पर

132. निम्नांकित आयों में से कौन सी आय हिन्दू अविभाजित परिवार के हाथ में कर योग्य है ?

- (1) परिवार को 31 दिसम्बर, 1969 के बाद सदस्य द्वारा स्थानान्तरित संपत्ति से आय।
- (2) अविभाजनीय संपत्ति से आय।
- (3) परिवार के विनियोगों से आय।
- (4) परिवार के सदस्य को दिये गये वेतन से आय।

128. On which incomes deductions under Section 80 C to 80 U shall not be allowed ?

- (1) Long term & Short term Capital Gain.
- (2) Casual income.
- (3) Income of undisclosed sources.
- (4) All of the above

129. From the following, on which income no deduction in respect of any expenditure, no loss is to be set off against any income and no deduction under section 80 C to 80 U from such income is given ?

- (1) Capital Gain
- (2) Casual Income
- (3) Salaries
- (4) None of the above

130. A new Section 115 BAC has been inserted from assessment year 2021-22, through this Section a new taxation system has been introduced. This Section is applicable on

- (1) Individual and HUF
- (2) Firm and AOP
- (3) Companies
- (4) All of the above

131. Life Insurance premium paid is not allowed u/s 80 C on the policy of

- (1) Assessee's life
- (2) Spouse's life
- (3) Father's life
- (4) Children's life

132. Which income is taxable in the hands of HUF from the following incomes ?

- (1) Income from property transferred to the family after 31<sup>st</sup> December, 1969 by member.
- (2) Income from impartible estate.
- (3) Income from investments of the family.
- (4) Salary income given to a member of family.

133. फर्म के 'पुस्तक लाभों' की गणना करते समय निम्नांकित मद नहीं घटाई जाती है :

- (1) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज
- (2) साझेदारों को दिया गया स्वीकृत ब्याज
- (3) आगे लाई गई व्यावसायिक हानियाँ
- (4) अशोधित ह्रास

134. यदि किसी सदस्य या साझेदार की व्यक्तिगत आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो तो व्यक्तियों के समुदाय पर कर की दर होगी

- (1) अधिकतम सीमांत दर 42.744%
- (2) सामान्य स्लेब की दरें
- (3) 30%
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

135. आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक कम्पनी को सकल कुल आय में से निम्नांकित कटौतियाँ मिलती हैं :

- (1) धारा 80 C से 80 U
- (2) धारा 80 G से 80 LA
- (3) धारा 80 C, 80 D, 80 DD तथा 80 EE
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

136. 18.5% की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर कम्पनी के \_\_\_\_\_ पर लागू होता है ।

- (1) पुस्तक लाभ
- (2) सकल कुल आय
- (3) कुल आय
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

137. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से धारा 115 BA के अन्तर्गत \_\_\_\_\_ की दर से आयों की शेष राशि पर कर लगता है ।

- (1) 20%
- (2) 25%
- (3) 30%
- (4) 60%

138. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 115 BBE के अन्तर्गत अस्पष्ट साधनों की आय पर कर की प्रभावी दर \_\_\_\_\_ है ।

- (1) 60%
- (2) 75%
- (3) 77.25%
- (4) 78%

133. Following item is not to be deducted when 'Book Profit' of firm is to be calculated :

- (1) Interest received on Government Securities.
- (2) Allowable interest paid to partners.
- (3) Business losses carried forward.
- (4) Unabsorbed depreciation.

134. Tax rate on association of persons is applicable if personal income of any member or partner is more than exemption limit

- (1) Maximum marginal rate of 42.744%
- (2) Rates of normal slab
- (3) 30%
- (4) None of the above

135. Following deductions from Gross total income are permissible to a company under Income Tax Act, 1961 :

- (1) Section 80 C to 80 U
- (2) Section 80 G to 80 LA
- (3) Section 80 C, 80 D, 80 DD & 80 EE
- (4) None of the above

136. Minimum Alternate Tax (MAT) at 18.5% is applicable on company's \_\_\_\_\_.

- (1) Book Profit
- (2) Gross Total Income
- (3) Total Income
- (4) None of the above

137. From Assessment year 2020-21 Balance amount of incomes will be taxable under Section 115 BA at

- (1) 20%
- (2) 25%
- (3) 30%
- (4) 60%

138. Effective rate of tax on income from undisclosed sources is \_\_\_\_\_ u/s Sec. 115 BBE for the Assessment year 2020-21.

- (1) 60%
- (2) 75%
- (3) 77.25%
- (4) 78%



139. स्वयं कर-निर्धारण धारा 140 A के अन्तर्गत करदाता \_\_\_\_\_ की राशि घटाने के बाद सारणी में दर्शायी गई आय पर गणना की गई राशि स्वयं जमा कराता है।

- (1) अग्रिम कर का भुगतान
- (2) उद्गम स्थान पर कर की कटौती
- (3) अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत कर जमा
- (4) उपरोक्त सभी

140. धारा 143 के अन्तर्गत किस आधार पर नियमित कर निर्धारण किया जाता है ?

- (1) आय की विवरणी के आधार पर
- (2) आय के सम्बन्ध में दिये गये सबूतों एवं प्रमाण के आधार पर
- (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

141. धारा 143(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी एक नियमित कर निर्धारण आदेश पारित किये बिना कर निर्धारण पूरा कर सकता है। कर निर्धारण करदाता द्वारा प्रस्तुत आयकर विवरणी के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार का कर निर्धारण \_\_\_\_\_ जाना जाता है।

- (1) स्वयं कर-निर्धारण
- (2) नियमित कर-निर्धारण
- (3) आय के नक्शे के आधार पर कर-निर्धारण (सारांश कर निर्धारण)
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

142. जब करदाता ने हिसाब की कोई नियमित पद्धति नहीं अपनाई हो तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये बहीखातों की सत्यता व पूर्णता के सम्बन्ध में निर्धारण अधिकारी संतुष्ट न हो तो इस दशा में निर्धारण अधिकारी करेगा

- (1) धारा 144 के अन्तर्गत अनिवार्य सर्वोत्तम कर-निर्धारण
- (2) धारा 145 (2) के अन्तर्गत कर निर्धारण
- (3) धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

139. Under Self-Assessment Sec. 140 A, the assessee himself shall deposit the amount of tax calculated on the basis of the income shown in the return after deducting the amount of \_\_\_\_\_.

- (1) Advance payment of tax
- (2) Deduction of tax at source
- (3) Amount of tax credit allowed under other provisions
- (4) All of the above

140. On what basis regular assessment under Section 143 is done ?

- (1) On the basis of return of income.
- (2) On the basis of evidence in support of the income.
- (3) Above (1) and (2) both
- (4) None of the above

141. Under Section 143(1), the Assessing Officer can complete the assessment without passing a regular assessment order. The assessment is completed on the basis of return submitted by the assessee. Such type of assessment is known as \_\_\_\_\_.

- (1) Self-assessment
- (2) Regular assessment
- (3) Summary assessment
- (4) None of the above

142. When assessee has not adopted regular system of accounting and, assessment officer is not satisfied from accuracy and completeness of books of accounts presented by assessee. In this case assessing officer will do \_\_\_\_\_.

- (1) Compulsory best judgement assessment u/s Sec. 144
- (2) Assessment u/s Section 145 (2)
- (3) Reassessment u/s Sec. 147
- (4) None of the above

143. एक करदाता अग्रिम कर भुगतान के लिए दायी नहीं है यदि

- (1) करदाता की उम्र 60 वर्ष या अधिक हो तथा उसकी व्यापार या पेशे शीर्षक में करयोग्य आय नहीं हो।
- (2) किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका कर दायित्व ₹ 10,000 से कम हो।
- (3) उपरोक्त (1) एवं (2) दोनों
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

144. उद्गम स्थान पर कर कटौती के प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का भुगतान \_\_\_\_\_ को देय हो।

- (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार
- (2) एक वैधानिक निगम जिसकी आय, आयकर से मुक्त है।
- (3) भारतीय रिजर्व बैंक
- (4) उपरोक्त सभी

145. किस आय पर उद्गम स्थान पर कर कटौती की 30% की दर लागू होती है ?

- (1) लॉटरी, वर्ग पहेली एवं घुडदौड़ से आय
- (2) वेतन से आय
- (3) लाभांश से आय
- (4) ब्याज से आय

146. कर वापसी का क्या कारण है ?

- (1) उद्गम स्थान पर कर कटौती तथा अग्रिम कर भुगतान नियमित कर निर्धारण के कार दायित्व से अधिक है।
- (2) भूल सुधार के कारण कर दायित्व कम हो गया हो।
- (3) दोहरे करारोपण की छूट का अधिकारी है।
- (4) उपरोक्त सभी

143. An assessee is not liable to pay advance payment of tax if \_\_\_\_\_.

- (1) Age of the assessee is 60 years or more and he has no taxable income from business or profession head
- (2) Amount of tax payable in any Financial Year is less than ₹ 10,000
- (3) Above (1) and (2) both
- (4) None of the above

144. Provisions of deduction of tax at source are not applicable if interest, is payable to \_\_\_\_\_

- (1) Central Government or State Government.
- (2) A Statutory Corporation whose income is exempted from income-tax.
- (3) Reserve Bank of India.
- (4) All of the above

145. On which income, 30% rate is applicable for deduction of tax at source ?

- (1) Winnings from lotteries, Cross word puzzles and horse races.
- (2) Income from Salaries.
- (3) Income from Dividends.
- (4) Income from Interest.

146. What is the reason of refund of Tax ?

- (1) Deduction of tax at source and advance payment of tax is more than tax liability on regular assessment.
- (2) Tax liability is reduced due to rectification of error.
- (3) Entitled for relief of double taxation.
- (4) All of the above

147. करदाता को दोहरे करारोपण की छूट किस दर से दी जायेगी यदि भारतीय आयकर की औसत दर 21.4% है तथा विदेशी आयकर की औसत दर 24.6% है ?

- (1) 30% की दर से
- (2) दोनों में जो अधिक हो।
- (3) दोनों में जो कम हो।
- (4) कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।

148. निम्नांकित में से सही कथन का पता लगाइए :

- (1) कर बचाव वैधानिक है जबकि कर चोरी अवैधानिक है।
- (2) कर बचाव वैधानिक कार्य विधि के अन्तर्गत कर दायित्व कम करता है।
- (3) कर बचाव अपराध नहीं है जबकि कर चोरी अपराध है।
- (4) उपरोक्त सभी कथन सही हैं।

149. कर नियोजन का उद्देश्य है

- (1) कर-दायित्व को कम करना।
- (2) कर-दायित्व में वृद्धि करना।
- (3) कर-दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं।
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

150. वेतनभोगी कर्मचारी कर नियोजन किया जा सकता है

- (1) कर योग्य भत्तों के स्थान पर अनुलाभों को प्राथमिकता दे।
- (2) महँगाई भत्ता, महँगाई वेतन, बिक्री पर आधारित निश्चित कमीशन सेवा शर्तों के अन्तर्गत हो।
- (3) भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C का अनुकूलतम प्रयोग करके
- (4) उपरोक्त सभी

147. From which rate of tax, relief of double taxation is to be given to the assessee if average rate of Indian income tax is 21.4% and average rate of foreign income tax is 24.6% ?

- (1) 30%
- (2) Whichever is higher.
- (3) Whichever is lower.
- (4) No relief will be given.

148. Find out the correct statement from the following :

- (1) Tax avoidance is legal whereas tax evasion is illegal.
- (2) Tax avoidance reduce the tax liability in legal framework.
- (3) Tax avoidance is not an offence whereas tax evasion is an offence.
- (4) Above all statements are correct.

149. The purpose of tax planning is

- (1) To reduce the tax liability.
- (2) To increase the tax liability.
- (3) No change in tax liability.
- (4) None of the above

150. Tax planning salaried employee can be done by

- (1) Perquisites rather than taxable allowances should be priority.
- (2) Dearness allowance, dearness pay, commission at a fixed percentage of turnover should be under terms of employment.
- (3) Makes optimum use of Section 80 C of Indian Income Tax Act, 1961.
- (4) All of the above

